

# S.P GROUP OF INSTITUTE

## 1 What is Financial Accounting?

### Definition:

**Financial Accounting** वह process है जिसमें किसी business के सभी **Financial Transactions** को systematically record, classify, summarize और report किया जाता है। इसका main purpose यह होता है कि business की **Financial Position** और **Profit/Loss** को सही तरीके से दिखाया जा सके। इसमें **Journal, Ledger, Trial Balance, Profit & Loss Account** और **Balance Sheet** तैयार की जाती है।

### Use:

- Business की performance जानने के लिए
- Government और Tax Authorities को report देने के लिए
- Investors और Owners को information देने के लिए

### Real World Example:

एक shop owner रोज की sales और purchases को Tally Prime में enter करता है और महीने के अंत में **Profit & Loss Account** देखकर जानता है कि उसे profit हुआ या loss।

---

## 2 What is Cost Accounting?

### Definition:

**Cost Accounting** वह accounting branch है जिसमें product या service बनाने की **Cost** को calculate, control और reduce किया जाता है। इसमें **Material Cost, Labor Cost** और **Overhead Cost** को analyze किया जाता है ताकि business कम खर्च में ज्यादा profit कमा सके।

### Use:

# **S.P GROUP OF INSTITUTE**

- Cost control करने के लिए
- Pricing decide करने के लिए
- Wastage कम करने के लिए

## **Real World Example:**

एक factory owner mobile cover बनाने में plastic, labor और electricity की cost निकालता है ताकि सही selling price तय कर सके।

---

## **3 What is Management Accounting?**

### **Definition:**

**Management Accounting** managers को decision लेने के लिए financial information provide करता है। इसमें past data का analysis करके future planning की जाती है जैसे **Budgeting, Forecasting, Ratio Analysis** आदि।

### **Use:**

- Planning और controlling के लिए
- Business expansion के लिए
- Performance evaluation के लिए

## **Real World Example:**

Company का manager पिछले साल की sales report देखकर अगला साल का **Budget** बनाता है।

---

## **4 Difference between Tally Prime and Tally ERP 9**

### **Tally ERP 9:**

# **S.P GROUP OF INSTITUTE**

- Old version
- Interface थोड़ा complex
- Limited automation

## **Tally Prime:**

- New version
- Simple और fast interface
- Better navigation और reports

## **Real World Example:**

पहले accountant Tally ERP 9 में काम करता था, अब Tally Prime में आसानी से billing और GST reports बना रहा है।

---

## **5 Paid Vs Free Software / Proprietary vs Open Source Software**

### **Paid / Proprietary Software:**

- License खरीदना पड़ता है
- Source code available नहीं होता
- Example: **Tally Prime, MS Office**

### **Free / Open Source Software:**

- Free में use किया जा सकता है
- Source code editable होता है
- Example: **Linux, LibreOffice**

# **S.P GROUP OF INSTITUTE**

## **Real World Example:**

Office में accounting के लिए Tally Prime (Paid) और students practice के लिए Linux (Free) use करते हैं।

---

## **6 What is Accounting Period?**

### **Definition:**

**Accounting Period** वह time duration होता है जिसमें business अपने accounts prepare करता है जैसे **Monthly, Quarterly, या Yearly**।

### **Use:**

- Profit/Loss calculate करने के लिए
- Tax calculation के लिए

## **Real World Example:**

एक company हर साल 1 April से 31 March तक अपना accounting period मानती है।

---

## **7 What is Accounts Payable?**

### **Definition:**

**Accounts Payable** वह amount है जो business को अपने suppliers या creditors को pay करना होता है।

### **Use:**

- Liability दिखाने के लिए
- Cash management के लिए

# **S.P GROUP OF INSTITUTE**

## **Real World Example:**

Shop owner ने wholesaler से goods खरीदे लेकिन payment बाद में करनी है, तो वह Accounts Payable कहलाता है।

---

## **8 What is Accounts Receivable?**

### **Definition:**

**Accounts Receivable** वह amount है जो business को अपने customers से receive करना होता है।

### **Use:**

- Asset management के लिए
- Cash inflow track करने के लिए

## **Real World Example:**

Shop owner ने customer को उधार में सामान दिया, payment बाद में मिलेगी, वह Accounts Receivable है।

---

## **9 What is Accrual?**

### **Definition:**

**Accrual** accounting concept है जिसमें income और expense उसी period में record किए जाते हैं जिसमें वे earn या incur होते हैं, चाहे cash मिले या न मिले।

### **Use:**

- Accurate profit calculation
- Matching concept follow करने के लिए

# **S.P GROUP OF INSTITUTE**

## **Real World Example:**

December का बिजली bill January में pay हुआ, फिर भी expense December में record होगा।

---

## **10 What is Asset?**

### **Definition:**

**Asset** वह property या resource है जो business के पास होती है और जिससे future में benefit मिलता है।

### **Types:**

- Current Asset – Cash, Stock
- Fixed Asset – Building, Machine

### **Real World Example:**

Shop का computer, cash और furniture सभी Assets हैं।